

Haryana Governor's Birth Day Press Note and Photos form Raj Bhavan 1-7-2017

चण्डीगढ, 1 जुलाई। हरियाणा के राज्यपाल प्रो० कप्तान सिंह सोलंकी के जन्म दिवस पर आज अनेक नेताओं, अधिकारियों, कर्मचारियों, गणमान्य नागरिकों और बच्चों ने राजभवन आकर उन्हें जन्मदिवस की बधाईयां दीं और उनके उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु की कामना की। प्रातः काल से ही राजभवन में राज्यपाल को बधाईयां देने वालों का तांता लग गया।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल, विधायक ज्ञानचन्द गुप्ता व लतिका शर्मा, अपर महा सालिस्टर भारत सरकार सतपाल जैन, भक्त फूलसिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर की कुलपति आशा कादयान, डिप्टी एडवोकेट जनरल सुशील गौतम, हरियाणा बाल कल्याण परिषद् की महासचिव श्रीमती संतोष अत्रेजा ने राजभवन आकर राज्यपाल को जन्मदिन की बधाई दी। हरियाणा पुलिस महानिदेशक बी०एस० संधू, चण्डीगढ के गृह सचिव अनुराग अग्रवाल, उपायुक्त अजीत बालाजी जोशी, पंचकुला की उपायुक्त गौरी पराशर जोशी ने भी राज्यपाल को जन्मदिवस पर बधाई दी।

प्रातःकाल में राजभवन स्पोर्ट्स क्लब की ओर से आयोजित जन्मदिवस समारोह में राज्यपाल की धर्मपत्नी श्रीमती रानी सोलंकी ने उन्हें फूलों की माला पहनाकर व तिलक लगाकर बधाई दी। उनके सुपुत्र राजेश सोलंकी व अन्य परिजनों, राज्यपाल के सचिव डॉ० अमित कुमार अग्रवाल व राजभवन हरियाणा के अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों ने राज्यपाल को बधाई व शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर आशा किरण केन्द्र, चण्डीगढ के वाणी व श्रवण बाधित बच्चों ने सांकेतिक भाषा में राष्ट्रगान गाया। रैडक्रास सोनीपत के दिव्यांग बच्चों ने ईश्वर वंदना के माध्यम से राज्यपाल के दीर्घायु होने की कामना की। रैडक्रास फरीदाबाद के बच्चों ने हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डब्ल्यू-बबलू गीत पर बड़ी उमंग व उत्साह के साथ नृत्य किया। रैडक्रास सोनीपत के दिव्यांग बच्चे सुशांत ने 'पांडे जी बजाएं सिटी' गाने पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। राज्यपाल ने बच्चों को उपहार वितरित किए। उन्होंने बधाई देने आए सब महानुभावों व बच्चों का धन्यवाद किया।









